

May 17, 2018

**BSE** Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400001

Scrip Code: 533320

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400051

**Scrip Code: JUBLINDS** 

Sub: Audited Financial Results - News Paper Publication

Dear Sir,

Further to our letter dated May 9, 2019 regarding approval of Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2019; please find enclosed the newspaper advertisements published, in compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in MINT (English) and HINDUSTAN (Hindi) on May 17, 2019.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Jubilant Industries Limited

Abhishek Mishra Company Secretary

Abhishde

Encl.: a/a



A Jubilant Bhartia Company

OUR VALUES

INSPIRE CONFIDENCE

ALWAYS STREYCH

ENDOVATION

OUR VALUES

ALWAYS STREYCH

EXCELLENT

ADMITTS

ADM

### **DEALS ROUND-UP**



### ETHEREAL MACHINES RAISES \$1 MN FROM BLUME VENTURES

Deep tech startup Ethereal Machines, which develops 5-axis computerized numerical control (CNC) machines and 3D printers for manufacturers, got its first pre-Series A round funding of \$1 million from technology focused venture fund, Blume Ventures.

The round also saw participation in personal capacities by Jitendra Gupta of PayU, Samay Kohli and Akash Gupta of Grey Orange Robotics, and Debashish Vanikar of Pidilite. The Bengaluru-based startup said it makes machines priced at roughly a third of its contemporaries. It plans to use the funds to expand its sales and distribution network. "We are excited to work closely with the founders of Grey Orange Robotics," said Kaushik Mudda, co-founder, Ethereal Machines

## GAMES2WIN LAUNCHES ₹10 CRORE FUND FOR GAME DEVELOPERS

Gaming website Games2win, which publishes free mobile games on its



Alok Kejriwal, chief executive

platform, has launched a fund with an initial capital of ₹10 crore for budding game developers and startups. The fund, REPLAY, seeks publishing rights and revenue sharing instead of equity in the games it invests in.

The developers would be free to pursue their own goals once they have launched and

stabilized their games on the Games2win portal, the firm said. "Gaming is a vertical that doesn't get easily funded by venture capital, which leads to a talent deficit in a business that is  $otherwise\ booming\ globally.\ Replay\ allows\ partnerships$ with the best game creators and inventors," said Alok

Government of India Public Enterprises Selection Board Invites applications for the post of

**Chairman and Managing Director** 

**GAIL** (India) Limited (A Govt. of India Undertaking - A Maharatna Company) Last date of receipt of applications in PESB is by 1500 hours on 18th July, 2019

Kejriwal, chief executive and co-founder, Games2win.

# Essel Group to sell 3 road assets to CDPQ

**DEALS** 

The assets may fetch an enterprise value of up to ₹3,500 crore

tanya.t@livemint.com

ssel Infraprojects Ltd has agreed to sell three of its road projects to Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Canada's second-largest fund manager, said two people aware of the development, as the Subhash Chandra-promoted Essel Group company seeks to trim its massive

The assets are expected to fetch a combined enterprise value of ₹3,300-3,500 crore, said the first person cited above, requesting anonymity. "Essel is likely to formally announce the deal within the next three to four weeks," the person said "The entire proceeds of the sale will be used towards debt repayment."

The three projects comprise toll roads in Madhya Pradesh (Lebad-Jaora state highway). Karnataka (Nav ayuga Devanahalli Tollway near Bengaluru airport, a national highway and Telangana (Essel Dichpally Toll way, a state highway).

 $\hbox{``With the term sheet signed, Essel}\\$ will now have to get the clearances from the national and state authorities for transfer of owner-

In April, Mint reported that both comprise toll roads in Madhya Pradach CDPQ and Cube Highways, the roads platform of infrastructure

ship," the first person

Capital, were doing due diligence on Essel Infra's road projects. Essel Infra has 14 road projects in its

portfolio, of which six are national highways and the rest state highways, according to the company's website The company had a debt of ₹11,466 crore as of December 2018.

A potential deal will offer an entry for CDPQ into India's toll roads sector

seeking comment until press time. A spokesperson for Essel Infra declined

A potential deal will offer an entry for CDPQ into India's toll roads sector. The investor is currently building a team to manage the assets, the second person said, requesting anonymity.

Plus fund, for ₹6,000 crore.

After private equity investor Actis LLP pulled out of a deal to buy Essel's solar power projects, the company is now in talks with several buyers such as Adani Power, Canadian Pension Plan Investment Board, *Financial* 

The Essel Group, with businesses in **ROAD TO DEBT REDUCTION** entertainment, infra-**ESSEL** is likely to

structure and packaging, has been strug gling to meet debt repayment obliga tions. In January shares of its flagship

Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) plunged, deferring a sched-uled interest payment. The group has since agreed with lenders who have offered time till September for various asset sales, including up to 50% of promoters' stake in ZEEL. The promoters of Essel group alone owe another 13,000 crore to their lenders.

# Temasek arm Vertex raises \$230 million for South-East Asia fund

feedback@livemint.com

SINGAPORE

ertex Venture Holding Ltd raised \$230 million in the first close of its fourth South-East Asian fund to back technology startups across the region and India.

The Singapore-based ven ture capital arm of Temasek Holdings Pte plans to finalize the funding in the next few months, which could take it

above the first close, said Chua KeeLock,manag-ing partner of Vertex Ventures and India. Most of fund including Cathay Financial Holding

Co., have backed the new one. After the success of its bet on ride-hailing app Grab, now South-East Asia's most valuable startup, Vertex plans to continue backing early-stage technology for financial services enterprise and consumers in the region. The net internal rate of return of its third South-East Asian and Indian fund,

which started in 2016, was 45.2% as of December, according to a presentation to inves

"Our investors have shown confidence in us by participating in the first closing which hit the initial target of the fund," Chua said, "The reality is that there are some concerns about the trade war and valuations and the fund-raising environment is getting harder.

Earlier Vertex investments include online shopping store

FirstCrv.com; InstaReM, a cross-Vertex plans to back early-stage border digital payments startup; technology for Validus, an online financial services. financing market enterprise place; and Binance Asia, a and consumers in the region cryptocurrency exchange plat

form. The VC firm got its start three decades ago and Chua ioined as chief executive officer of Vertex Venture Holdings in 2008 and expanded it into a global operation with \$2.5 billion under management as of October. Today, it manages portfolios in China, Israel. India, South-East Asia and the



**THE** entire proceeds

formally announce the deal within the next three-to-four

Essel Infra has placed the bulk of its completed projects—including power transmission, roads and renewable energy assets—on the block to reduce debt. Last October, it announced that it would sell four power transmission lines—two operating and two underconstruction—to Sekura, backed by

the Edelweiss Infrastructure Yield

Cont: Saurabh Kaushik: 98115 73331, 88268 7256

For details login to website https://pesb.gov.in



### Jubilant Industries Limited

Website: www.jubilantindustries.com | E-mail: investorsjil@jubl.com | Ph.: +91-5924-252353-60

### Extract of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2019

	Particulars	C	Quarter Ende	Year Ended		
SI No.		March 31, 2019	Dec. 31, 2018	March 31, 2018	March 31, 2019	March 31, 2018
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Revenue from operations	14,243	14,036	11,056	55,889	46,725
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	(7)	128	(426)	207	(460)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(7)	128	(426)	207	(460)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional items	(516)	128	(337)	(302)	(474)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(501)	71	(295)	(269)	(462)
6.	Equity Share Capital	1,373	1,373	1,193	1,373	1,193
7.	Reserves excluding Revaluation Reserve				5,039	2,581
8.	Earnings per share of ₹ 10 each					
	(a) Basic (₹)	(4.22)	1.07	(2.83)	(2.43)	(3.97)
	(b) Diluted (₹)	(4.22)	1.07	(2.83)	(2.43)	(3.97)

1. The Company has opted to publish Consolidated Financial Results. The Standalone Financial Results are available under Investors section of our website at www.jubilantindustries.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key Standalone Financial information of the Company is as under:

	Particulars	C	Quarter Ende	Year Ended		
SI No.		March 31, 2019	Dec. 31, 2018	March 31, 2018	March 31, 2019	March 31, 2018
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Revenue from operations	38	44	73	186	191
2.	Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional items	(112)	(60)	53	(273)	(145)
3.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive	(110)	(60)	52	(272)	(146)

- 2. The above audited financial results were, reviewed by the Audit Committee and approved and taken on records by the Board of Directors
- 3. The above is an extract of the detailed format of the audited consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited consolidated & standalone financial results for the quarter and year ended March 31, 2019 alongwith audit report of the Statutory Auditors is available under Investors section of our website at www.jubilantindustries.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Priyavrat Bhartia Chairman



### Extract of Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2019

(₹	in	lac
-		

Extract of Financial Results for the quarter and year chaed of Financia, 2015								
		Standalone			Standalone		Consolidated	
S.No.	Particulars	Quarter ended			Year ended		Year ended	
5.110.		31.03.19	31.12.18	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18
		Audited	<b>Un-Audited</b>	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total income from operations (net)	8,38,320	10,09,774	8,63,623	38,39,543	30,59,862	38,39,543	30,59,862
2.	Net Profit from ordinary activities before tax	65,451	81,128	79,077	3,23,358	3,05,511	3,30,871	3,08,770
3.	Net Profit from ordinary activities after tax	44,020	56,531	52,269	2,15,543	2,07,785	2,23,056	2,11,044
4.	Total Comprehensive Income	43,870	56,531	52,276	2,15,393	2,07,792	2,22,853	2,11,096
5.	Equity share capital	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
6.	Other Equity (excluding revaluation reserve)	8,56,607	8,12,737	8,22,047	8,56,607	8,22,047	8,73,058	8,31,129
7.	Earnings per share (Face value of Rs. 10/- each)							
	a) Basic (Rs)	2.93	3.77	3.48	14.37	13.85	14.87	14.07
	b) Diluted (Rs)	2.93	3.77	3.48	14.37	13.85	14.87	14.07
		(not annualised)			(annual	ised)	(annua	alised)
8.	Debt Equity Ratio				0.07	0.15	0.07	0.15
9.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)				4.62	3.71	4.72	3.74
10.	Interest Service Coverage Ratio (ISCR)				33.69	19.74	34.45	19.94
Notes								

Place: New Delhi

Date: 15th May, 2019

CIN: L74899DL 1998PLC093073

www.petroneting.com

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on the support of the Board of Directors in its meeting held on the support of the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held on the Board of Directors in its meeting held of Directors in its meeting hel15th May '2019.
- The Board has recommended dividend on current paid up capital of ₹1,500 Crore at ₹4.50 per equity share of ₹10 each (45%) for the year 2018-19 subject to the approval of shareholders
- The above is an extract of the detailed format of quarterly and yearly financial results filed with the stock exchanges under  $Regulation\,33\,of\,the\,SEBI (listing\,and\,other\,disclosure\,requirements)\,Regulations'\,2015.\,The\,full\,format\,of\,the\,quarterly\,and\,General and\,General an$ yearly financial results are available on the websites of National Stock Exchange, the Bombay Stock Exchange and the website of the company (www.petronetlng.com).

World Trade Center, 1st Floor, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi -110001

304 - 3rd Floor, World Trade Centre, Babar Road, Connaught Place, New Delhi - 110001, INDIA Tel : -91-11-23415512

Email : info@petronetingfoundation.org

Website : www.petronetingfoundation.org CIN : U85320DL2017NPL315422



V.K. Mishra

Director-Finance

DIN: 08125144

# सीएम ने गोरखपुर में विपक्ष पर बोला हमला, कहा- देश को कमजोर करने की साजिश रच रहा विपक्ष भाजपा सरकार के कारण गुंडे भयभीत हैं

। बोले योगी

लखनऊ | **विशेष संवाददाता** 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि **ट्टआज भाजपा सरकार के कारण**गुंडों के मन में भय है और यह जनता की ताकत से ही संभव हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी की जाति पूछकर विपक्ष देश को कमज़ोर करने की

साज़िश रच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर व गोरखपुर की जनसभाओं में कहा कि पहले सपा-बसपा के गुंडे ज़मीनों पर कब्ज़ा करते थे। हमने उन जमीनों को मुक्त कराकर उस पर गौशाला, अस्पताल बनाये और बची ज़मीनों के पट्टे गरीबों को दिए। उन्होंने कहा कि सपा-बसपा के लोग बिजली नहीं देते थे, वो अंधेरे में डकैती डालते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिन भेदभाव के सबका विकास किया है. तो वोट देने में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षों से सैनिकों

की मांग रही ''वन रैंक वन पेंशन को पीएम

सल्फास से बनी गैस

के हवा के संपर्क में

आने से हुआ विस्फोट

**अलीगढ़।**मेडिकल कॉलेज में बुधवार

को सल्फास खाने वाली महिला के

उपचार के दौरान मुंह में धमाका तथा

आग लगने के कारणों पर गरुवार को

फॉरेंसिक साइंस विभाग ने पाया कि पेट

में बनी अलफोस गैस के हवा से संपर्क

में आने पर यह हुआ। कॉलेज इस

अनूठे मामले को मेडिकल जगत के

सामने भी रखेगा। थाना हरदुआगंज

क्षेत्र के कस्बा जलाली के मोहल्ला

नसीर की रहने वाली शीला देवी (40

वर्षीय) पत्नी चुकेंद्र सिंह की बुधवार

को अचानक तिबयत बिगड़ गई थी।

शीला को एएमयू के जवाहर लाल नेहरू

मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया

था। यहां पर डॉक्टरों ने विषाक्त पदार्थ

के सेवन का संदेह जताते हुए उपचार

करना शुरू कर दिया था।

कफ्य

भद्रवाह/जम्मू | **एजेंसी** 

जम्मू-कश्मीर की भद्रवाह घाटी में

गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की

मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। इसको

देखते हुए गुरुवार को कर्फ्यू लगा दिया

गया। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर

दी गई हैं। पुलिस ने गोली चलाने वालों

को गिरफ्तार कर लिया है। पांच अन्य को

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच

की जा रही है। घटना में मारे गए नईम के

परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसे

गोरक्षकों की हिंसा का शिकार होना पड़ा

हिरासत में लिया गया है।



सीएम ने गाजीपुर में पार्टी प्रत्याशी मनोज सिन्हा के पक्ष में रैली को संबोधित किया।

## मोदी को रोकने में जुटे दलों को जनता रोक देगी : सीएम

वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को यहां कहा कि सारे विरोधी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं लेकिन जनता विरोधियों को रोक देगी। उन्होंने कहा कि वनवासी समाज के लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद वनवासी समाज के हर घर तक रसोई गैस, बिजली, पानी, राशन कार्ड पहुंचाने का काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में भाजपा के वनवासी संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

कैबिनेट मंत्री नंदी से मांगी

शहीद के पिता बोले, छुट्टी पर घर आने वाले थे

पांच करोड़ की रंगदारी

मोदी ने लागु किया। जिन लोगों को भगवान ने दृष्टि ही नहीं दी उन्हें विकास कभी नहीं दिखेगा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस 55 वर्षों तक देश के किसानों, सेना के

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के

मोबाइल पर फोन कर पांच करोड़ की

रंगदारी मांगी गई है। साथ ही रंगदारी नहीं

देने पर जान से मारने की धमकी दी गई

है। इस खबर से सनसनी फैल गई। फोन

12 मई को किया गया था। मंत्री के

लीगल एडवाइजर सुभाष बाजपेई ने

कोतवाली में गुरुवार को एफआईआर

दर्ज कराई है। इससे पहले भी नंदी को

फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा

चुकी है। फोन करने वाले ने यह भी कहा

कि पिछली बार के हमले में बच गए थे।

इस बार बम मारेंगे तो जिंदा नहीं बचोगे।

कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया गया

भद्रवाह में शख्स की मौत के बाद हिंसा

रोहतक ।पुलवामा में आतंकी मृटभेड में

रोहतक के महम कस्बे के बेहल्बा गांव

के रहने वाले संदीप शहीद हो गए।

संदीप के पिता ने बताया कि दो दिन

पहले ही फोन पर उनसे बात हुई थी तो

उन्होंने बताया था कि दस दिन बाद यानी

शहादत की खबर से घर परिवार सहित

26 मई को छुट्टी पर घर आ रहा हूं,

लेकिन उनके आने से पहले उनकी

है कि उन्होंने गोली तब चलाई जब

बुधवार रात उन्होंने दो लोगों को संदिग्ध

से उड़ाने का मैसेज आया था। ऐसा ही

ईमेल सीबीसीआईडी, इंटेलीजेंस और

सरक्षा मुख्यालय लखनऊ को भेजा गया

पूरे गांव में मातम छा गया।

परिस्थितियों में घूमते देखा।

फोन काटने पर किया एसएमएसः

जवानों और नौजवानों की समस्याओं को नजरअंदाज करती रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल में ही सभी समस्याओं के

9839609501 पर फोन आया।

जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग करते हए

रंगदारी मांगी गई और ना देने पर जान से

मारने की धमकी दी गई। इसके बाद फोन

कट गया। थोड़ी देर बाद इसी नंबर पर

एसएमएस के जरिए रंगदारी मांगी गई और

जान से मारने की धमकी दी गई। मंत्री नंद

गोपाल गुप्ता नंदी पर जुलाई 2010 में

रिमोट बम से उनके आवास पर हमला

हुआ था। इसमें नंदी के गनर और एक

बेटे की शहादत की सचना पर

**पिता हुए बेहोश : कानपुर ।** कानपुर

सिंह को जैसे ही आर्मी कंट्रोल से फोन

पर बेटे रोहित यादव के शहीद होने की

सचना मिली तो वे बेहोश हो गए। घर में

कोहराम मच गया। माँ विमला देवी और

पत्नी वैष्णवी उर्फ रूबी यादव का रो-

रोकर बुरा हाल हो गया। रोहित 17

अप्रैल को ही छुट्टी से वापस गए थे।

पलिस स्टेशन पर पथराव किया और

कई वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने

भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए

लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले

IUBILANT

देहात के डेरापुर निवासी पिता गंगा

### पांच साल और दें, यूपी होगा नम्बर वनः शाह



अध्यक्ष अमित शाह ने देश व प्रदेश की तरक्की के लिए और पांच साल मांगे। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश को नम्बर वन राज्य बनाएंगे। राष्ट्रवाद व आतंकवाद के जरिए विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ तो पाकिस्तान के साथ ही कांग्रेस व सपा–बसपा के लोगों को दर्द हुआ। शाह ने गुरुवार को सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के सिकंदरपुर व बलिया संसदीय क्षेत्र के चितबड़ागांव में जनसभाओं को संबोधित किया।

रिश्वत लेते गिरफ्तार

सीजीएसटी इंस्पेक्टर

गाजियाबाद।स्क्रैप कारोबारी से रिश्वत

लेते रंगे हाथों गिरफ्तार केंद्रीय जीएसटी

विभाग के इंस्पेक्टर को अदालत ने जेल

भेज दिया। गुरुवार शाम करीब साढ़े चार

बजे सीबीआई की विशेष अदालत में

आरोपी इंस्पेक्टर को पेश किया गया।

अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक

हिरासत में भेज दिया। आरोपी पर

कारोबारी का माल भरा ट्रक पास कराने

के एवज में 30 हजार का रिश्वत लेने

का आरोप है। सीबीआई टीम के हाथों

तीस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

इंस्पेक्टर का नाम वीरेंद्र कुमार है। वह

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी.

विभाग में नोएडा के डिवीजन पंचम में

करीब एक वर्ष से तैनात थे। सीबीआई के

वरिष्ठ लोक अभियोजक ने बताया कि

सीबीआई की टीम नेनोएडा में तैनात

सीजीएसटी इंस्पेक्टर वीरेंद्र को 30 हजार

की रिश्वत लेत गिरफ्तार किया था।

यूपी कैटेट परीक्षा

में १२०४ अभ्यर्थी

अयोध्या। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि

एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा-2019

के पहले दिन कुल 1204 अभ्यर्थी

अनुपस्थित रहे। प्रवेश परीक्षा प्रदेश के

छह जनपदों के 29 केंद्रों पर

आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के

कलपति प्रो. जेएस संधू ने अयोध्या

जिले के केंद्रों पर परीक्षा का निरीक्षण

किया। गरुवार को स्नातक पाठयक्रम

की प्रवेश परीक्षा में कानपुर में

352.वाराणसी में 156. बांदा

में 26, अयोध्या में 119, लखनऊ में

361 व मेरठ में 194 अभ्यर्थी

रहे अनुपस्थित

भाजपा ने गरीबों पर सितम ढाया, पलायन बढाया



प्रियंका गांधी ने गुरुवार को महराजगंज के जीएसवीएस इंटर कॉलेज में सुप्रिया श्रीनेत के लिए सभा की। मंच पर आते ही कहीं शहीद पंकज त्रिपाठी की धरती और सांसद हर्षवर्धन की कर्मभूमि को मैं नमन करती हूं। क्रांतिकारी शिब्बन लाल सक्सेना की इस धरती से पर्वाचल में एक नई क्रांति का संचार होगा और पूरे देश में बदलाव होगा। भाजपा ने गरीबों पर सितम ढाया। रोजगार घटाया और पलायन बढाया इस बार भाजपा का जनता सफाया

# सीएचएसएल में 5789 पद घोषित

(एसएससी) ने संयुक्त हायर सेकेंड्री परीक्षा भर्ती (सीएचएसएल) के तहत भरे जाने वाले संभावित पद घोषित कर दिए हैं। यह भर्ती केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में तीन प्रकार के पदों के लिए होती है। एसएससी ने तीनों को मिलाकर कुल 5789 पद घोषित किए हैं। भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है इसलिए पदों की संख्या में आगे और इजाफा होने की संभावना है।एसएससी ने सीएचएसएल 2018 का नोटिफिकेशन

## खेतान के खिलाफ कार्रवार्ड से रोका

**नईदिल्ली।** अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में आरोपी गौतम खेतान को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। इससे जुड़े कालाधन मामले में हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को खेतान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि पहली नजर में पेशे से अधिवक्ता खेतान अंतरिम राहत पाने का हकदार है।

# मागवत के काफिले के वाहन का टायर फटा

नागपुर। चंद्रपुर जिले के वरोरा में बृहस्पतिवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के काफिले के एक वाहन का टायर फट गया। इसके चलते गाड़ी मे सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी ने बताया कि घटना वरोरा-ननदोरी सड़क पर शाम करीब पांच बजे हुई। भागवत के चंद्रपुर से नागपुर लौटने के दौरान काफिले में चल रहे कार का टायर फटा। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने बताया कि भागवत ठीक हैं

### गुस्साए ग्रामीणों ने तेंदुए को पीटकर मार डाला

नवाबगंज/हाफिजगंज(बरेली)। वन विभाग की लापरवाही से कमुआं गांव में एक तेंदुए की जान चली गई।

खेत पर फसल देखने गए किसान पर हमले से गुस्साए ग्रामीणों ने तेंदुए को लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला। तेंदए की उम्र करीब ढाई साल बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच-के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए आईवीआरआई भेज दिया।

तो नजदीक ही जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट है।

## अलवर में दुष्कर्म पीड़िता से मिले राहुल

**जयपुर।** कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को अलवर में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजन से मुलाकात की। वह करीब 15 मिनट तक पीड़ित परिवार के साथ रहे और शीघ्र न्याय का भरोसा दिया।राहुल सुबह हेलीकॉप्टर से अलवर और फिर थानागाजी पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भी थे। मुलायम लौटे विक्रमादित्य मार्ग, किया गृह प्रवेश लेखनऊ।समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नेया ठिकाना आठ, विक्रमादित्य मार्ग हो गया है।मुलायम सिंह यादव ने गुरुवार को इस बंगले में बकायदा पूजा पाठ व हवन करवाया और गृहप्रवेश किया। इस दौरान उनकी पत्नी साधना गुप्ता, छोटी बहु अपर्णा यादव व परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मुलायम के इस बंगले के सामने लोहिया ट्रस्ट भवन है

### एएसओ के अभ्यर्थियों से मांगे गए अभिलेख

ओर से 11 नवंबर 2018 को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में निर्धारित मानक के मुताबिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।इस परीक्षा 40 प्रतिशत अर्थात 52.8 या इससे अधिक अंक पाने वाले अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी और तीस प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले एससी-एसटी के अभ्यर्थियों को वेबसाइट से प्रपत्र डाउनलोड कर उसे भरने के बाद शैक्षिक अभिलेखों और आरक्षण से संबंधित

### नवीनतम अभिलेख संलग्न कर तीन जून तक आयोग दफ्तर में जमा करना होगा

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल अभियंता / दितीय / मरादाबाद दारा ई टेन्डर संख्या 17—डी आर एम-एम बी 19—20 दिनांक 13.05.2019 जिसके बंद होने की तिथि 18.06.2019 है। उपरोक्त टेन्डर संख्या के अर्न्तगत आमंत्रित किये जाते है। जो उसी दिन 16:00 बजे तव किये जायेगे। कार्य का नाम : सहायक मण्डल अभियंता-शाहजहॉपुर के आधीन सीनियर सेक्शन इंजीनियर/रेल पथ/शाहजहॉपुर के आधीन ट्रैक के वार्षिक रखरखाव का कार्य टेन्ड क्लोजिंग दिनांक समय : 18.06.2019 16:00 बजे, अनुमानित लागत : रु.1,11,60,624.5 धरोहर राशिः रु.2,05,800.00 टेन्डर फार्म की लागत : रु.5000.00, बिडिंग शुरू दिनांक : 04.06 2019 एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि : 12 माह। मैन्युल आफर स्वीकार्य नहीं होंगे। टेन्डर स् संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें। ठेकेदारों को अनुमति दी जार्त है कि इस निविदा का निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि का भुगतान वह केवल through online payment modes जो कि IREPS पर उपलब्ध है जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड -इत्यादि से करें। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपोजिट बैंकर चैक, डिपोजिट रसीद एफ डी आ से भुगतान की अनुमति नहीं है **टेन्डर नं. 17—डी आर एम—एम बी 19—20 दिनांक** : **13** 

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल अभियंता/द्वितीय/मुरादाबाद द्वारा **ई टेंडर संख्या 22-डीआरएम-एम बी-19-20 दिनांक-13.05.2019** जिसके बंद होने की तिथि 18.06.2019 है। उपरोक्त टेंडर संख्या के अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं जो उसी दिन आधीन सीनियर सेक्शन इंजीनियर/रेल पथ/बालामऊ के आधीन टैक के वार्षिक रखरखाव का कार्य। **टेंडर क्लोजिंग दिनांक/समय**–18.06.2019. 16.00 बजे अनुमानित लागतः रु. 44,64,272.90/-. धरोहर राशिः रु. 89,300/-. टेंडर फार्म की लागतः रु. 3,000/-. बिडिंग शुरू दिनांकः 04.06.2019 एवं कार्य पूर्ण करने की अवधिः 12 माह मैन्यूल ऑफर स्वीकार्य नहीं होंगे। टेंडर से संबंधित अन्य जानकारी वैबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें। ठेकेदारों को अनुमति दी जाती है कि इस निविदा का निविद मल्य एवं धरोहर राशि का भगतान वह केवल through online payment mod जो कि IREPS पर उपलब्ध है जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से करें। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपोजिट रसीद, एफ.डी.आर. से भुगतान की अनुमति नहीं

### उत्तर रेलवे

है। संः 22-डीआरएम-एम बी-19-20

निविदा सूचना

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

दिनांकः 13.05.2019

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल अभियंता / द्वितीय / मुरादाबाद द्वारा ई टेन्डर संख्या 21-**डी आर एम– एम बी 19–20** दिनांक– 13.05.2019 जिसके बन्द होने की तिथि **18.06.2019** है। उपरोक्त टेन्टर संख्या के अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते हैं जो उसी दिन 16:00 बजे तक किये जायेंगे। **कार्य का नाम**ः सहायक मण्डल अभियन्ता–हरदोई– द्वितीय के आधीन सीनियर सेक्शन इंजीनियर / रेल पथ / सीतापर के आधीन टैक के वार्षिक रखरखाव का कार्य / **टेन्डर** क्लोजिंग दिनांक / समय : 18.06.2019, 16:00 बजे, अनुमानित लागत : रू. 89,28,566.82, धरोहर राशि : रू. 1,78,600.00, टेन्डर फार्म की लागत : रू. 5000.00, बिडिंग शुरू दिनांक : 04.06.2019 एवं **कार्य पूर्ण करने की अवधि** : 12 माह। मैन्यूल आफर स्वीकार्य नहीं होंगे। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वैबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखें। ठेकेदारों को अनुमति दी जाती है कि इस निविदा का निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि का भुगतान वह केवल through online payment modes जो कि IREPS पर उपलब्ध है जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से करें। डिमाण्ड डाफ्ट, बैंकर चैक, डिपोजिट रशीद, एफ, डी, आर, से

### मुगतान की अनुमति नहीं है। **टेन्डर नं. 21-डी आर एम—एम बी 19—20 दिनांक** : **13.05.2019 1474/2019** ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल अभियंता / द्वितीय / मुरादाबाद द्वारा ई टेन्डर संख्या **16-डी आर एम— एम बी 19—20** दिनांक— 13.05.2019 जिसके बन्द होने की तिथि **18.06.2019** है। उपरोक्त टेन्डर संख्या के अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते हैं जो उसी दिन 16:00 बजे तक किये जायेंगे। **कार्य का नाम** : सहायक मण्डल अभियन्ता—शाहजहाँपर के आधीन रोजा में फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट में विभिन्न सी टी आर / टी आर आर का कार्य के सिलसिले में क्लीनिंग, ब्लास्टिंग जिंक मैटा लैज़िंग तथा 60 किलोग्राम / 52 किलो ग्राम रेलपेंटिंग का कार्य। **टेन्डर क्लोजिंग** दिनांक / समय : 18.06.2019, 16:00 बजे, अनुमानित लागत : रू. 14,88,26,638.72, धरोहर राशि : रू. ८,८४,१००.००, टेन्डर फार्म की लागत : रू. १००००.००, बिडिंग शुरू दिनांक : ०४.०६.२०१९ एवं **कार्य पूर्ण करने की अवधि** : 15 माह | मैन्यूल आफर स्वीकार्य नहीं होंगे | टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वैबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें। ठेकेदारों को अनुमति दी जाती है कि इस निविदा का निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि का भुगतान वह केवल through online payment modes जो कि IREPS पर उपलब्ध है जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से करें। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपोजिट रशीद, एफ॰ डी॰ आर॰ से भुगतान की अनमति नहीं है। **टेन्डर नं. 16-डी आर एम—एम बी 19—20 दिनांक** : **13.05.2019 1469/2019** 

### ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

## ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियंता / सी द्वारा ई—कोटेशन जिनके बंद होने की तिथि 23.05.2019, है। निम्न कोटेशन संख्या के अर्न्तगत आमंत्रित किये जाते है जो उसी दिन 16:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। कोटेशन की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, डिपाजिट रसीद आदि स्वीकार नहीं होंगे। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in

01-DRM-MB-Q-19-20 Date : 11.05.2019
प्रवर मंडल अभियंता/प्रथम के अधीन सहायक मंडल अभियंता/नजीबाबाद के क्षेत्र में ग्लूड जॉइंट के निर्माण

कोटेशन क्लोसिंग दिनांक/समय 23.05.2019 16:00 अनुमानित लागत धरोहर राशि 8600.00 कोटेशन फार्म की लागत 1000.00 11.05.2019 बिडिंग स्टार्ट तिथि 45 दिन आफर की वैधता कार्य पूर्ण करने की अवधि

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

1463/19

No. 74-W/2/3/WA/Publication Dated : 11.05.2019

Privavrat Bhartia

# राजद्रोह कानून को और सख्त करना जरूरी : राजनाथ सिंह

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद्रोह कानून को खत्म करने की बजाय इसे और सख्त करने की जरूरत है। केंद्र में भाजपा के फिर सत्ता में आने पर इस कानून को और कड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पांच साल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। राजनाथ सिंह ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में राजद्रोह

कानून को खत्म करने और सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम की समीक्षा करने का वादा किया है। हर राजनीतिक दल के लिए देश सबसे ऊपर होना चाहिए और देश की शान के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए राजद्रोह कानून के प्रावधानों को और कड़ा किया जाने की जरूरत है।

इस कार्यालय के **निविदा सं.-1-डब्ल्यू/निविदा-260-A/उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण/मुरादाबाद** दिनांक 13.05.2019 के द्वारा उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद के अधीन मुरादाबाद मण्डल के रोज़ा–सीतापुर दोहरीकरण के सम्बन्ध में मैगलगंज, नेरी, महोली, हेमपुर र्वं सीतापुर स्टेशनों पर नये फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म शेड एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों के कैब्रिकेशन एवं इरेक्शन का कार्य एवं मेजर ब्रिज सं. 41, 59 & 65 के सुपर स्ट्रक्वर जैसे डैक स्लैब, बियरिंग, स्टील चैनल आदि के निर्माण का कार्य की निविदा जोकि **दिनांक 07.06.2019** को खोली जानी है, उसमें निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं:-बयाना राशि रु. 9.83.020.00 के स्थान पर रु. 9.83.000.00 पढा जाए

उपरोक्त निविदा सूचना के अन्य विवरण यथावत् रहेंगे। सं.: 1-डब्ल्यू/निविदा-260-A/उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण/मुरादाबाद दिनांक 15.05.2019 ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल अभियन्ता / द्वितीय / मुरादाबाद द्वारा ई टेन्डर संख 20—डी आर एम–एम बी 19—20 दिनांक 13.05.2019 जिसके बन्द होने की तिथि 18.06.2019 है। उपरोक्त टेन्डर संख्या के अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते है जो उसी दिन 16:0 बजे तक किये जायेंगे। **कार्य का नाम** : सहायक मण्डल अभियन्ता–हरदोई प्रथम व अधीन सीनियर सेक्शन इंजीनियर / रेल पथ / संडीला के अधीन ट्रैक के वार्षिक रखरखा का कार्य। **टेन्डर क्लोजिंग दिनांक / समय**ः 18.06.2019 16:00 बजे, **अनुमानित लाग**त 1,11,60,624.54, घरोहर राशि : रु. 2,05,800.00 टेन्डर फार्म की लागत : रु. 5000 00, बिडिंग शुरू दिनाक : 04.06.2019 एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि : 12 माह मैन्यूल आफर स्वीकार्य नहीं होंगे। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वैबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें। ठेकेदारों को अनुमति दी जाती है कि इस निविदा क निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि का भुगतान वह केवल through online payment modes जो कि IREPS पर उपलब्ध है जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से करें डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपोजिट रशीद, एफ.डी.आर से भुगतान की अनुमाति नहीं है। टेन्डर नं. 20-डी आर एम-एम बी 19-20 दिनांक 13.05.2019

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

### 181 Jubilant Industries Limited

Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, Distt. Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24100UP2007PLC032909 Website: www.jubilantindustries.com | E-mail: investorsjil@jubl.com | Ph.: +91-5924-252353-60

### Extract of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2019

		•	tuarter ⊑nde	rear Ended		
SI No.	Particulars	March 31, 2019	Dec. 31, 2018	March 31, 2018	March 31, 2019	March 31, 2018
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Revenue from operations	14,243	14,036	11,056	55,889	46,725
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	(7)	128	(426)	207	(460)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(7)	128	(426)	207	(460)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional items	(516)	128	(337)	(302)	(474)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(501)	71	(295)	(269)	(462)
6.	Equity Share Capital	1,373	1,373	1,193	1,373	1,193
7.	Reserves excluding Revaluation Reserve				5,039	2,581
8.	Earnings per share of ₹ 10 each					
	(a) Basic (₹)	(4.22)	1.07	(2.83)	(2.43)	(3.97)
	(h) Diluted (₹)	(4 22)	1 07	(2.83)	(2.43)	(3.97)

Notes

1. The Company has opted to publish Consolidated Financial Results. The Standalone Financial Results are available under Investors section of our website at www.jubilantindustries.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key Standalone Financial information of the Company is as under:

	Particulars	G	Quarter Ende	Year Ended		
SI No.		March 31, 2019	Dec. 31, 2018	March 31, 2018	March 31, 2019	March 31, 2018
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Revenue from operations	38	44	73	186	191
2.	Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional items	(112)	(60)	53	(273)	(145)
3.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(110)	(60)	52	(272)	(146)

2. The above audited financial results were, reviewed by the Audit Committee and approved and taken on records by the Board of Directors at its meeting held on 16th May, 2019.

Place · NOIDA

Date : 16th May, 2019

3. The above is an extract of the detailed format of the audited consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2019, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited consolidated & standalone financial results for the guarter and year ended March 31, 2019 along with audit report of the Statutory Auditors is available under Investors section of our website at www.jubilantindustries.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com for Jubilant Industries Limited

# स्टेशन उड़ाने की धमकी देने वाले दो भाई दबोचे

मेरठ-शामली | **हिटी** 

दिल्ली-यूपी के सात रेलवे स्टेशनों को 72 घंटे में बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज भेजने वाले दो संदिग्ध आतंकी भाइयों को शामली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके मोबाइल से गोला-बारूद इकट्ठा करने और बम धमाके की तैयारियां करने जैसी ऑडियो मिली हैं। एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्यों और किसके कहने पर ये मैसेज भेजे गए। कोर्ट ने दोनों को 14

दिन की न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। 14 मई को गाजियाबाद और शामली एसपी की ऑफिशियल ईमेल आईडी

था। शामली कोतवाली में आईपीसी 505 और 66 एफ आईटी एक्ट में मकदमा दर्ज करते हुए केस की जांच साइबर क्राइम सेल के प्रभारी कर्मवीर सिंह को दी गई। जीमेल आईडी का डिटेक्शन करने के बाद शामली पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकियों को रोडवेज बस स्टैंड शामली से बुधवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को शामली में एसपी अजय कुमार पांडेय ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त गुलजार और शहजाद हैं। दोनों मेरठ में कंकरखेडा थाना क्षेत्र के नंगलाताशी के रहने वाले पर निजामुद्दीन, गाजियाबाद, मेरठ, हैं और सगे भाई हैं। एक दर्जी और दूसरा शामली सहित सात रेलवे स्टेशनों को बम सई-धागा बेचने का काम करता है।

# पिथौरागढ़ की शीतल ने एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा

देहरादून **कार्यालय संवाददाता** 

उत्तराखंड की शीतल ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर गुरुवार को तिरंगा फहराने में कामयाबी हासिल की। शीतल ने गुरुवार सुबह 6 बजे माउंट एवरेस्ट पर पहली बार अपने कदम रखे। करीब 15 मिनट तक माउंट एवरेस्ट पर रहने के बाद शीतल नीचे उतरीं। खास बात यह रही कि जिस समय बेटी ने एवरेस्ट पर झंडा फहराया, उस समय उसके पापा गांव में

गेहं काट रहे थे। एवरेस्ट फतह करने के मामले में पिथौरागढ़ के ही लवराज धर्मशक्त के नाम सबसे अधिक छह बार का रिकॉर्ड दर्ज है। लवराज के ही गृह जिले से







